

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

अंतिम पेपर में...पास होने की तैयारी...अभी से करें

**अंतिम पेपर में
पास होना
अर्थात्
समय पर
धारणा स्वरूप बनना**




इष्ट देव की विशेषताएँ



- 1.** सदा रहमदिल होगा।
- 2.** सदैव सर्व के दुःख हर्ता सुख कर्ता का पार्ट बजायेगी।
- 3.** सदैव सर्व के दुःख हर्ता सुख कर्ता का पार्ट बजायेगी।
- 4.** सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी।
- 5.** सदा स्वभाव में, संस्कार में चलने में सिम्पुल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा।
- 6.** सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाये नज़र आयेंगे।
- 7.** सदा स्थिति में अचल, अडोल होगी।
- 8.** सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे।

निराकार ज्योतिर्बिन्दु
परमपिता शिव परमात्मा



पिताश्री ब्रह्मा बाबा

Om Shanti

दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल
सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है,
झूठ बोलना ही पड़ेगा....

लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व
पवित्रता के लिए कितनी आपोजीशन हुई
फिर भी घबराये नहीं सत्यता के लिए
सहनशक्ति की आवश्यकता होती है
सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है,
हार माननी पड़ती है लेकिन वह हार नहीं है
सदा की विजय है

हर कदम में फॉलो फादर

(वापदादा:-13-03-2022)



(कर्मातीव)


कर्म बन्धन मुक्त-कर्म सम्बन्ध मुक्त

विश्व सेवाधारी (निर्माण और अर्थरिटी
का बैलेंस)

संकल्प तक में वफादार

सदा आज्ञाकारी

सर्वन्श त्यागी (मन-बुद्धि सहित समर्पण)




AAJ KA SWAMAAN

मैं अखण्ड शान्तिमय राज्य
की अधिकारी आत्मा हूँ...।



MADHUBAN ...

By setting timetable and doing our daily tasks, we save time and energy and get them done with perfection.





"सम्पर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए.."

सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुँच न सकेंगे। जैसा समय जैसे सरकमस्टन्सिज (Circumstance) हों उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रीयल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रीयल गोल्ड नहीं हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी - जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलतामूर्त्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए।

Avyakt Murli - 19-11-79



BRAHMA KUMARIS
Education Wing, Mount Abu



/AvyaktMurliEssence



Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org